

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 141]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी 2020 — फाल्गुन 9, शक 1941

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 24 फरवरी 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-11/2020/वा.क.(आब.)/पांच(6).— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप-धारा (2) के खण्ड (घ), (ङ), (च), (छ) एवं (ज) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा धारा 13 के अध्वधीन राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :-

संशोधन

1/ उक्त नियमों में :-

(1) छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 के नियम 8 के उप नियम 1 के खण्ड (ट) के स्थान पर निम्नानुसार खण्ड (ट) प्रतिस्थापित किया जावे अर्थात् :-

(ट) एफ.एल.10 (प्रदायकर्ता का वितरण-नियंत्रण अनुज्ञप्ति) :- यह अनुज्ञप्ति केवल छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के लिए होगी। अनुज्ञप्तिधारी विदेशी मदिरा का भण्डारण एफ.एल.10क एवं एफ.एल.10ख के माध्यम से केवल उन ब्राण्डों तथा लेबलों का भण्डारण करावेगा, जो नियम 9 के अंतर्गत पंजीकृत हो। एफ.एल.10 अनुज्ञप्तिधारी, एफ.एल.10क एवं एफ.एल.10ख द्वारा भण्डारण किये गये विदेशी मदिरा स्टॉक को छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित मदिरा दुकानों/एफ.एल.7 अथवा एफ.एल.8 अनुज्ञप्तिधारी को विक्रित करावेगा। अनुज्ञप्तिधारी सुविधा अनुसार एक से अधिक स्थानों/जिलों में विदेशी मदिरा का भण्डारण एवं विक्रय करा सकेगा।

(2) प्रारूप एफ.एल.10 के स्थान पर, निम्नानुसार नवीन प्रारूप एफ.एल.10 प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

प्रारूप एफ.एल. 10
प्रदायकर्ता का वितरण-नियंत्रण अनुज्ञप्ति

छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम-8 के उप-नियम (1) के खण्ड (ट) के अधीन तथा अनुज्ञप्ति फीस रुपये/- (अक्षरी रुपये मात्र) जिसका भुगतान अग्रिम में किया जा चुका है, के प्रतिफलस्वरूप यह अनुज्ञप्ति छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड को विदेशी मदिरा के थोक विक्रय के नियंत्रण हेतु नीचे दी गई अनुसूची में वर्णितनगरजिले में स्थित अनुज्ञप्त परिसर से तक एतद्वारा निम्न शर्तों के अध्वधीन रहते हुए स्वीकृत की जाती है :-

शर्तें

- (1) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस अनुज्ञप्ति के अधीन, विदेशी मदिरा के केवल उन नामपत्रों (लेबल्स) या ब्राण्डों की मदिरा का उत्पादन, भण्डारण तथा प्रदाय कराया जाएगा, जो किसी भी एफ.एल.10क एवं एफ.एल.10ख अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भण्डारित किया गया हो तथा जिनके ब्राण्ड/लेबल्स इन नियमों के नियम-9 के अंतर्गत आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमोदित एवं पंजीकृत हों।
- (2) अनुज्ञप्तिधारी विदेशी मदिरा का विक्रय केवल छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित मदिरा दुकानों/एफ.एल.7 एवं एफ.एल.8 अनुज्ञप्तिधारियों को सीलबंद बोतलों में एफ.एल.10क एवं एफ.एल.10ख अनुज्ञप्तिधारियों से करावेगा।
- (3) अनुज्ञप्तिधारक, एफ.एल.10क एवं एफ.एल.10ख द्वारा विदेशी मदिरा के लिये निर्धारित विनिर्माता या बोतल बंद करने वाले बॉटलर से छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संबंधित गोदामों में भण्डारण एवं विक्रय हेतु आयात एवं परिवहन करके लाई गई विदेशी मदिरा के भण्डारण का नियंत्रण करेगा।
- (4) अनुज्ञप्तिधारक, एफ.एल.10क एवं एफ.एल.10ख द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य बेवरेजेस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संबंधित गोदामों में विदेशी मदिरा का भण्डारण, विनिर्माता या बोतल बंद करने वाले बॉटलर द्वारा विदेशी मदिरा का आयात एवं परिवहन यथास्थिति, विहित की गई आयात फीस, परिवहन फीस एवं समस्त शुल्क भुगतान होने के पश्चात् कराया जाएगा।
- (5) अनुज्ञप्तिधारी, केवल अनुज्ञप्त परिसर से ही कारोबार का संचालन करेगा, आबकारी आयुक्त की लिखित में पूर्व अनुमति के बिना, परिसर में कोई परिवर्धन या परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
- (6) अनुज्ञप्तिधारक समस्त विदेशी मदिरा की प्राप्ति, स्टॉक एवं विक्रय का बोतल आकारवार एवं नामपत्रवार (लेबल वाइज) सही लेखा दिन-प्रतिदिन प्रत्येक एफ.एल.10क एवं एफ.एल.10ख अनुज्ञप्तिधारक अनुसार संधारित करेगा।
- (7) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति की सामान्य शर्तों की शर्त क्रमांक 2, 10, 14, 16, 25, 26, 27 एवं 32 को छोड़कर शेष समस्त शर्तों से आबद्ध होगा।
- (8) अनुज्ञप्तिधारक, अनुज्ञप्त परिसर में स्थित एफ.एल.10 क एवं एफ.एल.10 ख को संचालन संबंधी आवश्यक निर्देश दे सकेगा।
- (9) इन अनुज्ञप्ति की किसी शर्त या छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के किसी उपबंध अथवा उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबंध आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये गये किसी आदेश पर, यह अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा रद्द या निलंबित की जा सकेगी।

दिनांक :

आबकारी आयुक्त
छत्तीसगढ़, रायपुर

अनुसूची-1

विवरण	अनुज्ञप्त परिसर की सीमाएँ			
	उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
1	2	3	4	5

2/ उक्त नियमों में :-

- (1) छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 के नियम 8 के उप नियम 1 के खण्ड (ट-1) के स्थान पर निम्नानुसार खण्ड (ट-1) प्रतिस्थापित किया जावे अर्थात् :-

(ट-1) एफ.एल.10क (राज्य के बाहर निर्मित विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) एवं एफ.एल.9(क) अनुज्ञप्ति के अधीन निर्मित विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) के भण्डारण एवं प्रदाय हेतु गोदाम अनुज्ञप्ति) :- यह अनुज्ञप्ति छत्तीसगढ़ के बाहर निर्मित विदेशी मदिरा एवं राज्य के एफ.एल.9(क) विशेष बोतल भराई अनुज्ञप्तिधारक द्वारा निर्मित मदिरा का भण्डारण एवं थोक विक्रय हेतु प्रदत्त की जावेगी। अनुज्ञप्तिधारक मदिरा का संग्रहण एफ.एल.10 अनुज्ञप्तिधारक के गोदाम परिक्षेत्र में ही कर सकेगा। यह अनुज्ञप्ति उन स्थानों में दी जावेगी, जहां एफ.एल.10 अनुज्ञप्ति के गोदाम हो। अनुज्ञप्तिधारक केवल उन ब्राण्ड/नामपत्रों (लेबलों) की विदेशी मदिरा का नियमानुसार देय समस्त फीस/शुल्क का संदाय होने के पश्चात् भण्डारण करेगा, जो नियम 9 के अंतर्गत आबकारी आयुक्त द्वारा पंजीकृत हो। अनुज्ञप्तिधारक, भण्डारित मदिरा का विक्रय छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित मदिरा दुकानों/एफ.एल.7 अथवा एफ.एल.8 अनुज्ञप्तिधारक को ही कर सकेगा।

(2) प्रारूप एफ.एल.10क के स्थान पर, निम्नानुसार नवीन प्रारूप एफ.एल.10क प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

प्रारूप एफ.एल. 10क

राज्य के बाहर निर्मित विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) एवं एफ.एल.9(क) अनुज्ञप्ति के अधीन निर्मित विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) के भण्डारण एवं प्रदाय हेतु गोदाम अनुज्ञप्ति

छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम-8 के उप-नियम (1) के खण्ड (ट-1) के अधीन तथा अनुज्ञप्ति फीस रुपये/- (अक्षरी रुपये मात्र) जिसका पूर्व में ही भुगतान किया जा चुका है, के प्रतिफलस्वरूप यह अनुज्ञप्ति श्रीको नीचे दी गई अनुसूची-1 में वर्णित किये गये नगरजिला में स्थित छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड के गोदाम परिसर में स्थित अनुज्ञप्त परिसरों से विदेशी मदिरा का थोक विक्रय करने हेतु से तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए एतद्वारा स्वीकृत की जाती है :-

शर्तें

- (1) अनुज्ञप्तिधारी अपनी आवश्यकताओं को आयात या राज्य के एफ.एल.9(क) [विशेष बोटल भराई अनुज्ञप्ति] अनुज्ञप्तिधारियों से परिवहन पर प्राप्त करेगा।
- (2) इस अनुज्ञप्ति के अधीन केवल उन्हीं नामपत्रों (लेबलों) तथा ब्रांड वाली विदेशी मदिरा का भण्डारण किया जाएगा जो छत्तीसगढ़ के बाहर विनिर्मित तथा बोटलबंद (बाटल्ड) की गई है और जो इन नियमों के नियम 9 के अधीन आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ के पास रजिस्ट्रीकृत है या राज्य में कार्यरत एफ.एल.9(क) [विशेष बोटल भराई अनुज्ञप्ति] के तहत रजिस्ट्रीकृत हो।
- (3) अनुज्ञप्तिधारी, राज्य के बाहर निर्मित मदिरा एवं राज्य में एफ.एल.9(क) [विशेष बोटल भराई अनुज्ञप्ति] के अंतर्गत निर्मित मदिरा के लेबलों के प्रदाय हेतु, विनिर्माता इकाई की अनुमति पश्चात्, अपना रेट ऑफर (प्रदाय दर) छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड को प्रस्तुत करेगा।
- (4) अनुज्ञप्तिधारी, अपना स्टॉक केवल छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित मदिरा दुकानों/एफ.एल.7 एवं एफ.एल.8 अनुज्ञप्तिधारियों को ही विक्रय करेगा।
- (5) वह विदेशी मदिरा का भण्डारण विहित आयात फीस/आबकारी शुल्क अथवा काउंटरवेलिंग ड्यूटी (प्रतिशुल्क), जैसा भी लागू हो, के संदाय होने के पश्चात् करेगा।
- (6) अनुज्ञप्तिधारी, आयात किये गये स्टॉक के सभी अनुज्ञापत्र तथा बीजक उचित अनुक्रम में परिरक्षित करेगा तथा उन्हें निरीक्षणकर्ता प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
- (7) हिस्की, रम, ब्रांडी, जिन, वाईन, बीयर आदि के बक्से (कार्टन) ब्राण्ड वाइज/नामपत्रवार (लेबल वाइज) और बोटल आकारवार (बोटल साइज वाइज) व्यवस्थित रूप में, क्रमबद्ध तथा थप्पियों में एक दूसरे से पृथक-पृथक स्टॉक किये जाएंगे।
- (8) अनुज्ञप्तिधारी, स्टोर रूम के मध्य में एवं दीवारों के किनारे मुक्त आवागमन और स्टॉक सत्यापन को सुगम बनाने के लिए विदेशी मदिरा के पैकेज रहित सुगम गलियारा (पैसेज) छोड़ेगा।
- (9) अनुज्ञप्तिधारी, केवल छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड के गोदाम परिसर अन्तर्गत स्वीकृत गोदाम से ही कारोबार का संचालन करेगा, आबकारी आयुक्त की लिखित में पूर्व अनुमति के बिना, परिसर में कोई परिवर्धन या परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
- (10) अनुज्ञप्तिधारी, आमद की गई, स्टॉक की गई एवं विक्रय की गई समस्त विदेशी मदिरा का नामपत्रवार (लेबलवाइज) तथा बोटल आकारवार सही लेखा दिन-प्रतिदिन संधारित करेगा।
- (11) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति की सामान्य शर्तों की शर्त क्रमांक 2, 10, 14, 16, 25, 26, 27 एवं 32 को छोड़कर शेष समस्त शर्तों से आबद्ध होगा।
- (12) अनुज्ञप्तिधारक, एफ.एल.10 अनुज्ञप्तिधारक (छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड) द्वारा मदिरा के भण्डारण हेतु निर्धारित शर्तों/निर्देशों से आबद्ध रहेगा।
- (13) इन अनुज्ञप्ति की किसी शर्त या छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबंध आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये गये किसी आदेश का भंग होने पर, यह अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा रद्द या निलंबित की जा सकेगी।

दिनांक :

आबकारी आयुक्त
छत्तीसगढ़, रायपुर

अनुसूची-1

विवरण	अनुज्ञप्त परिसर की सीमाएँ			
	उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
1	2	3	4	5

3/ उक्त नियमों में :-

(1) छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 के नियम 8 के उप नियम 1 के खण्ड (ट-2) के पश्चात् नवीन खण्ड (ट-3) अंतःस्थापित किया जावे अर्थात् :-

(ट-3) एफ.एल.10ख :- (राज्य में एफ.एल.9 अनुज्ञप्ति के अधीन बॉटलिंग की गई विदेशी मदिरा (स्पिरिट/माल्ट) के भण्डारण एवं प्रदाय हेतु गोदाम अनुज्ञप्ति) :- यह अनुज्ञप्ति छत्तीसगढ़ राज्य के एफ.एल.9 अनुज्ञप्तिधारक द्वारा निर्मित मदिरा का भण्डारण एवं थोक विक्रय हेतु प्रदत्त की जावेगी। यह अनुज्ञप्ति राज्य के सभी एफ.एल.9 अनुज्ञप्तिधारकों को पृथक-पृथक प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा। अनुज्ञप्तिधारक मदिरा का संग्रहण एफ.एल.10 अनुज्ञप्तिधारक के गोदाम परिसर में ही कर सकेगा। यह अनुज्ञप्ति उन स्थानों में दी जावेगी, जहां एफ.एल.10 अनुज्ञप्ति के गोदाम हो। अनुज्ञप्तिधारक केवल उन ब्राण्ड/नामपत्रों (लेबलों) की विदेशी मदिरा का नियमानुसार देय समस्त फीस/शुल्क का संदाय होने के पश्चात् भण्डारण करेगा, जो नियम 9 के अंतर्गत आबकारी आयुक्त द्वारा पंजीकृत हो। अनुज्ञप्तिधारक, भण्डारित मदिरा का विक्रय छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित मदिरा दुकानों/एफ.एल.7 अथवा एफ.एल.8 अनुज्ञप्तिधारक को ही कर सकेगा।

(2) प्रारूप एफ.एल.10क के पश्चात् नवीन प्रारूप एफ.एल.10ख प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

प्रारूप एफ.एल. 10 ख

राज्य में एफ.एल.9 अनुज्ञप्ति के अधीन बॉटलिंग की गई विदेशी मदिरा (स्पिरिट/माल्ट) के भण्डारण एवं प्रदाय हेतु गोदाम अनुज्ञप्ति

छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम-8 के उप-नियम (1) के खण्ड (ट-2) के अधीन तथा अनुज्ञप्ति फीस रुपये/- (अक्षरी रुपये मात्र) जिसका पूर्व में ही भुगतान किया जा चुका है, के प्रतिफलस्वरूप यह अनुज्ञप्ति श्री को नीचे दी गई अनुसूची-1 में वर्णित किये गये नगर जिला में स्थित छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड के गोदाम परिसर में स्थित अनुज्ञप्त परिसरों से विदेशी मदिरा का थोक विक्रय करने हेतु से तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए स्वीकृत की जाती है :-

शर्तें

- (1) अनुज्ञप्तिधारी अपनी आवश्यकताओं को केवल स्वयं के ब्राण्ड/लेबलों की विदेशी मदिरा का एफ.एल.9 (बोतल भराई अनुज्ञप्ति) अनुज्ञप्ति के अन्तर्गत प्राप्त कर, पूर्ति करेगा।
- (2) इस अनुज्ञप्ति के अधीन केवल उन्हीं नामपत्रों (लेबलों) तथा ब्रांड वाली विदेशी मदिरा का भण्डारण एवं प्रदाय किया जाएगा जो छत्तीसगढ़ में स्वयं अनुज्ञप्तिधारी (एफ.एल.9 { बोतल भराई अनुज्ञप्ति}) द्वारा विनिर्मित तथा बोतलबंद (बाटल्ड) की गई है और जो इन नियमों के नियम 9 के अधीन आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ के पास रजिस्ट्रीकृत है।
- (3) अनुज्ञप्तिधारी, अपने लेबलों के प्रदाय हेतु अपना रेट ऑफर (प्रदाय दर) छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड को प्रस्तुत करेगा।
- (4) अनुज्ञप्तिधारी, अपना स्टॉक केवल छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा संचालित फुटकर मदिरा दुकानों/एफ.एल.7 एवं एफ.एल.8 अनुज्ञप्तिधारियों को ही विक्रय करेगा।
- (5) वह विदेशी मदिरा का भण्डारण, विहित परिवहन फीस/आबकारी शुल्क अथवा काउंटरवेलिंग ड्यूटी (प्रतिशुल्क), जैसा भी लागू हो, आदि के संदाय होने के पश्चात् करेगा।
- (6) अनुज्ञप्तिधारी, भण्डारित किये गये स्टॉक के सभी अनुज्ञापत्र तथा बीजक उचित अनुक्रम में परिरक्षित करेगा तथा उन्हें निरीक्षणकर्ता प्राधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करेगा।
- (7) व्हिस्की, रम, ब्रांडी, जिन, वाईन, बीयर आदि के बक्से (कार्टन) ब्राण्ड वाइज/नामपत्रवार (लेबल वाइज) और बोतल आकारवार (बोतल साइज वाइज) व्यवस्थित रूप में, क्रमबद्ध तथा थपियों में एक दूसरे से पृथक-पृथक स्टॉक किये जाएंगे।
- (8) अनुज्ञप्तिधारी, स्टोर रूम के मध्य में एवं दीवारों के किनारे मुक्त आवागमन और स्टॉक सत्यापन को सुगम बनाने के लिए विदेशी मदिरा के पैकेज रहित सुगम गलियारा (पैसेज) छोड़ेगा।

- (9) अनुज्ञप्तिधारी, केवल छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड के गोदाम परिसर अन्तर्गत स्वीकृत गोदाम से ही कारोबार का संचालन करेगा, आबकारी आयुक्त की लिखित में पूर्व अनुमति के बिना, परिसर में कोई परिवर्धन या परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
- (10) अनुज्ञप्तिधारी, आमद की गई, स्टॉक की गई एवं विक्रय की गई समस्त विदेशी मदिरा का नामपत्रवार(लेबल वाइज) तथा बोटल आकारवार सही लेखा दिन-प्रतिदिन संधारित करेगा।
- (11) अनुज्ञप्तिधारी, अनुज्ञप्ति की सामान्य शर्तों की शर्त क्रमांक 2, 10, 14, 16, 25, 26, 27 एवं 32 को छोड़कर शेष समस्त शर्तों से आबद्ध होगा।
- (12) अनुज्ञप्तिधारक, एफ.एल.10 अनुज्ञप्तिधारक (छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड) द्वारा मदिरा के भण्डारण हेतु निर्धारित शर्तों/निर्देशों से आबद्ध रहेगा।
- (13) इन अनुज्ञप्ति की किसी शर्त या छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के उपबंध आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये गये किसी आदेश का भंग होने पर, यह अनुज्ञप्ति, अनुज्ञापन अधिकारी द्वारा रद्द या निलंबित की जा सकेगी।

दिनांक :

आबकारी आयुक्त
छत्तीसगढ़, रायपुर

अनुसूची-1

विवरण	अनुज्ञप्त परिसर की सीमाएँ			
	उत्तर	पूर्व	दक्षिण	पश्चिम
1	2	3	4	5

4/ उक्त संशोधन जारी दिनांक से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए.पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.